

पुरानी साइकिलों और बर्तनों से संवार रहे पचपेड़ी नाका गार्डन

भास्कर न्यूज | रायपुर

हूटी बाल्टी, बर्तन, प्लास्टिक सामान और अन्य ऐसी चीजों का उपयोग के बाद कबाड़ में चली जाती हैं अब उनका नए सिरे से उपयोग होगा। घरों से निकलने वाले कबाड़ का उपयोग कर शहर के एक गार्डन को संवारा जा रहा है। पचाईदोनाका में गार्डन को विकसित करने के लिए कबाड़ से जुगाड़ थीम का इस्तेमाल किया जा रहा है। कबाड़ के रूप में फैकी जाने वाली चीजों की कई तरह से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं। पर्यावरण को बचाने और गार्डन को हरोपर कसने के उद्देश्य से ही करीब एक एकड़ के इस गार्डन को डेवलप किया जा रहा है। अमृत योजना के तहत नगर निगम इस गार्डन को विकसित कर रहा है लेकिन बड़ी संख्या में वालफोट डम्पलेय तथा अन्य कालोनियों के लोगों का भी योगदान है।



वे अपने घरों का वेस्ट सामान दान कर रहे हैं। पुरानी साइकिल, पुराने बर्तन, प्लास्टिक का सामान, ड्रम इत्यादि गार्डन के लिए दान किए जा रहे हैं। रविवार को निगम कमिश्नर रजत बंसल ने गार्डन का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। अपर

आयुक्त आशीष टिकरिहा, रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के एमडी फायनेंस अविनाश भोसले, कार्यपालन अभियंता राजेश शर्मा आदि भी मौजूद थे। इस उद्घाटन में घरों के कबाड़ में कचरे की तरह पड़े पुराने टायरों तथा अन्य सामान का उपयोग किया जा रहा है।

पांच गार्डन
इसी थीम पर

अमृत योजना के तहत शहर के पांच गार्डनों को विकसित किया जा रहा है। पचपेड़ी नका का यह गार्डन पहला है। कबाड़ से जुगाड़ थीम से ही देवेंद्र कपूर, कपड़ा मार्केट पीछे, सरयू बांधा तालाब के पास, उड़या सोसाइटी टाटीबंध, एमआर कालेज, टैगोर नगर को भी विकसित किया जाएगा। इसके लिए जिला खनिज निधि से भी फंड मिला है।

स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छ पर्यावरण जरूरी: डॉ. रमन

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने विश्व पर्यावरण दिवस के शुभकायिकार्थ दोहरे वृक्ष की छवि धरती पर मानव समाज और प्रकृति का जल के स्वच्छ जीवन के लिए स्वच्छ पर्यावरण का होना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा - हमें जल, जंगल और जमीन के पर्यावरण के साथ-साथ अपने गली-मोहल्लों, गांवों और शहरों के पर्यावरण को भी स्वच्छ बनाने के लिए मिलकर काम करना होगा। डॉ. सिंह ने कहा - पर्यावरण को स्वच्छ और शुद्ध बनाने में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन की भी निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। डॉ. रमन सिंह ने सभी लोगों से प्रथम के पर्यावरण को बचाने के लिए अपने-अपने क्षेत्रों में हर संभव प्रयास करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा - पर्यावरण संरक्षण का द्वारा सिर्फ वृक्षारोपण तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि जल प्रदूषण को रोकने के लिए नदियों, तालाबों, कुंडों, झरनों, झीलों और अन्य जल स्रोतों की स्वच्छता का भी ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है।

एक भी शराब दुकान नहीं होगी बंद : अमर अग्रवाल



भास्कर न्यूज | रायपुर

67 अधिकारियों का सम्मान

आबकारी मंत्री अमर अग्रवाल ने सोमवार को यहां कहा कि छत्तीसगढ़ में शराब दुकानों बंद करने की कोई योजना नहीं है। चुनाव के पहले लोगों की मांग पर सरकार कई बार शराबबंदी जैसे मुद्दों पर गंभीरता से ध्यान देते हुए शराब दुकानों बंद करने, सड़क किनारे से शराब दुकानें हटाने पर जोर देती है लेकिन इस बार राज्य सरकार की किसी भी प्लानिंग नहीं है। सरकारी निगरानीमें शराबबंदी सफल रही है।

पत्रकारों से चर्चा में अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश में अभी भी कई जिलों, कस्बों, गांवों और आबादी वाले इलाकों में खुली हुई शराब दुकानों का स्थानीय लोगों द्वारा समय-समय पर विरोध किया जाता रहा है जिसके कारण सरकार कुछ दुकानों को बंद करने या कुछ दुकानों का शिफ्ट करने जैसा काम करती

समारोह में एनयूएलएम योजना में कार्यों के लिए 67 अधिकारियों को सम्मानित किया। शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त के लिए नगर निगम बिलासपुर, कोरबा, जगदलपुर, नगरपालिका पिनखद जांगीर नैला, जशपुर नगर और कोण्डागंव को दिया गया है। उत्कृष्ट मिशन पबंधक के रूप में बिलासपुर की प्रज्ञा पोरेवाल, कोरबा निगम के मनीष भोई, रायपुर निगम की रीमा शुक्ला, राजनंदगांव निगम की सुष्मा मिश्रा को पुरस्कृत किया गया है।

है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया जाया। अमर अग्रवाल ने सोमवार को अंत्योदय योजना पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि राष्ट्रीय आजीविका मिशन में मार्च 2017-2018 में छत्तीसगढ़ एक नंबर पर आया है। साल 2015-16 में छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर था।

केंद्रीय मंत्री नट्टा ने कहा- विकास को चुनावों से मत जोड़िए

चुनाव गणित का खेल, छत्तीसगढ़ में जब होंगे तब अपना गणित बता देंगे

भास्कर न्यूज | रायपुर

जीरो से निपटने नया विधेयक जल्द



मादी सरकार के 4 साल पूरे होने पर
केन्द्र सरकार को उपलब्धियों गिना-
पहुँचे केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी
नन्दा ने कहा कि विकास और चुनाव को
समा मत जोड़िए।
हमारा देश प्रति
प्रति कश्मिरीयों
है। इसलिए हम
विकास कर रहे
हैं। छत्तीसगढ़
विधानसभा चुनाव
में जीत को लेकर
चुनाव गणित का खेल है, जब
हम अपना गणित बता देंगे तब ही दावा

हमारे पक्ष में है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने महंगाई कम करने, बेरोजगारी दूर करने, काला धन वापस लाने जैसे कई मुद्दों पर काम किया है। नड्डा ने कहा कि मोदी सरकार में छत्तीसगढ़ की उपेक्षा नहीं हुई है और ना ही आगे होगी।

केंद्र की उपलब्धियां एक पीसी में बयां नहीं हो सकती : केंद्र की उपलब्धियों पर कहा कि सरकार ने इस दौरान विकास और सुधार के इतने काम

82 मेडिकल कॉलेजों के ज़िरो इंटर घोषित किये जाने पर नब्बू ने कहा- 'लंबे समय से स्वास्थ्य सेवा की दिशा में जो प्रगति रही है उससे अंतर हुआ है। एक नया चरण लोकसभा में पेश हो चुके हैं जो इन सारी समस्याओं को खत्म कर सकेगा। मेडिकल कैम्पसिटी को बढ़ाएंगे। नब्बू ने कहा बाहर से पढ़कर आने वालों को यहां आकर दोबारा परीक्षा देनी होती है, उसके बगैर प्रैक्टिस नहीं कर पाते अब हम एक नई नीति बना रहे हैं जिसमें तय कर रहे हैं कि जब यहां से बाहर पढ़ने कोई जाए तो इससे पहले नीट की परीक्षा क्लियर की जाए।

किए हैं कि इसे एक बैठक या पीसी में बर्बाद नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि किसानों के मुद्दों पर समस्याओं की जटिलता इतनी ज्यादा रही है कि व्यापक सुधार आते-आते वक़्त लगता है। सरकार जीवन स्तर सुधारने लगता प्रयास कर रही है। लड़्डु ने दावा किया कि 48 महीनों में मोदी सरकार ने जिस तरह से काम किया, उससे देश में ट्रांसफॉर्मेशन आया है। देश आर्थिक रूप से संपन्न हुआ है।

छत्तीसगढ़ में ठीक नहीं है

स्वास्थ्य सेवाओं का हाल: कांग्रेस

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा द्वारा सरकार के 4 साल की उपलब्धियाँ गिनाते पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। कांग्रेस संचारित्र्य विभाग के अध्यक्ष शैलेशा निमित्त त्रिवेदी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में 5 लाख बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। भाजपा सरकार राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सहित बड़े सरकारी अस्पतालों का निर्जीवकरण करने पर आमदा है। सरकारी अस्पतालों में होने वाले खून जांच, एक्सरे, सीटी स्कैन सहित विभिन्न तरह के जांच के कार्यों को निजी हाथों में देने की तैयारी की जा रही है। शैलेशा निमित्त त्रिवेदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के अस्पतालों में चिकित्सकों और प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी है। राज्य में 691 पद विशेषज्ञ चिकित्सकों के खाली हैं, शल्य चिकित्सकों के 149 पद रिक्त हैं। चिकित्सकों के 517 पद खाली हैं। नर्सिंग स्टाफ के 1453 पद खाली हैं, ड्राग इंस्पेक्टर के 33 पद रिक्त हैं। ऐसे में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य केन्द्री में 50 किस्म की दवाई मुफ्त वितरण के खोखले दावे करके उपलब्धियाँ गिना रहे हैं। जब मर्ज का दवा बताने वाले डॉक्टर अस्पताल में हैं ही नहीं है तो फिर सरकार चिकित्सकों का दवा मुफ्त किन मरीजों को दे रही है? त्रिवेदी ने जेपी नड्डा से पूछा कि छत्तीसगढ़ के अस्पतालों में 50 दवाइयाँ मुफ्त क्यों नहीं दी जा रही हैं? अगर यह दावा सही है तो ये यह बता कि छत्तीसगढ़ के कितने सरकारी अस्पतालों में कौन-कौन सी दवायें मुफ्त दी जा रही हैं? अभी तक कितने मरीजों को ये पचास दवाइयाँ मुफ्त दी गई हैं?

मृगनयनी

मध्यप्रदेश प्रदर्शनी 2018

2 से 12 जुन 18

बैंगल रोड, 12 से 13 वीं गेट तक

नवग्रहों के विष्णुसौरी की नृत्य

• बोंगी • बोंगोली • अलारी
 • सेना नाचों • गुल्लू एवं सेना नाच
 • बोंगोली नाचों एवं अन्य नृत्यनाच
 • सेना नाच एवं अलारी...

Madhya Pradesh Govt Emporium

Mr. praveen

Art from the heart

Visit us at: www.mrpraveen.com

छत्तीसगढ़ साट

छत्तीसगढ़ के साट, पकड़ी, चमचु

कार्यलय : 101 बंगला हाउस, बंगलाहाउस रोड, छत्तीसगढ़ विधान सभा भवन
 रायपुर : विधान सभा भवन (छत्तीसगढ़) बंगला हाउस, बंगला हाउस, 101 बंगला हाउस

छत्तीसगढ़ साट



संशोधन

इसका हवाला दैनिक भास्कर मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ के फ्रंट पेज में 3 जून, 2018 को प्रकाशित गलत विप्रो संतूर विज्ञापन, 2 संतूर साबुन खरीदे व एक पेन प्री पाएं ऑफर विज्ञापन से है। चालू ऑफर 100 ग्राम संतूर साबुन के 4 पैक की खरीद के साथ एक चम्मच प्री है।

[illegible][illegible]

सिनेमा काफ़िर
 7549604030
सफेद दाम
 8525345800

खटनिलं लाओ
घर के कीड़े मकोड़े भगाओ

सफाई की जरूरत

सूखी सफाई

→

पानी में डालो

AGHATNIL

विश्वसनीय 1% मलिन और घुसने वाले

HIDAS HYGIENE IND PVT. LTD.
Trade Inquiry: info@hidasgigihana.net | www.hidasgigihana.net | 8104192278

Affordable Peace Product




एक कोसिल,
मैं जैसा आराम देने की...
एक शान्तदायक मौका,
अपना स्लीपवेल मैट्रेस अब पाएं
100% मुफ्त*

स्लीपवेल मैट्रेस के प्रयोग जोड़ें के साथ यह सुनिश्चित निश्चिन्त जीवन का पहला कदम है। अपने कमरे में, आपके पास मैट्रॉनिक सिग्नलिंग या फिर अपना मैट्रेस 100% मुफ्त मिलेगा।



हम समझते हैं कि आपका नाम जानने के लिए आपको बस इतना करना है:

1. हमारे नज़दीकी स्लीपवेल डिस्ट्रीब्यूटर और आपके घर पर स्लीपवेल मैट्रेस खरीदें।
2. हमारे और भी सही तरीके से उपयोग करने के बारे में और सुनिश्चित जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट या फिर अपना मैट्रेस 100% मुफ्त मिलेगा।

*निर्देशों एवं शर्तों के लिए हमारे और भी वेबसाइट देखें sleepwellproducts.com

 To know more give us a missed call on **9870262806**

Sleepwell World: Rajpur: 8829627000, 886370860, Sleepwell Gallery: Rajpur: 8865001122, 9425204888, 8827800006, Bilibili: 8105771111, Jaipur: 9425258820, Sleepwell Shoppe: Rajpur: 9165818181, Rajwadejwara: 9407688788, Durgamchauri: 9300517000, Raigarh: 9630333332, Baran: 9993666633, Baloda Baner: 8832076882, Maheswarun: 9456803311, Deekha: Dealers: Bikaner: 842427872, Rajpur: 774040818, 774268081, 8827167788, 8426214882, Bikaner: 8868168800, 7784060886, Haridwar: 9406841444, Authorised Dealers: 9425698888, Bikaner: 9381061871, Dharg: 7782212884, Rajpur: 5718752000, 7712224100, 9795010000, 9425902010, 9827181344, 9303811343, 7712537153, 9826415873, 9826504080, Khandagpur: 9425686282, Deewar: 9827181344, 7000618166, Ambargarh Chauri: 9424184046, Dullajhura: 8868785677, Alhamper: 8877948288, For Trade Enquiries: 9901253571.